

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र तथा सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केंद्र, भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अधिनस्त कार्यरत स्वायत्तशासी संगठन हैं। देश की कला, संस्कृति और शिक्षा की विभिन्न गतिविधियों और परियोजनाओं को समर्पित ये दोनों राष्ट्रीय संस्थान, गांधी जयंती के अवसर पर "महात्मा गांधी के विचार" की केन्द्रीय थीम पर स्कूली छात्रों के लिए ऑनलाइन निबंध लेखन प्रतियोगिता आयोजित कर रहे हैं।

यह प्रतियोगिता देश में महात्मा गांधी के 150 वें जन्म शताब्दी समारोह के स्मरणोत्सव का एक हिस्सा है। छात्रों की रचनाएं गांधी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ अपने मौलिक विचारों को प्रकट करने का एक सशक्त साधन होंगी।

गांधी जी सभी के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध एक स्वतंत्र और मजबूत राष्ट्र बनाने में विश्वास रखते थे। गांधी के सबक आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। इस प्रतियोगिता में 9 वर्ष से 18 वर्ष के छात्र भाग ले सकते हैं और 14 सितंबर, 2020 तक अपनी प्रविष्टियां भेज सकते हैं।

### निबंध के विषय ---

#### कनिष्ठ (9 से 13 वर्ष) —

- गांधी जी की स्वच्छ भारत की कल्पना
- गांधी जी का अस्त्र – अहिंसा
- कर्मयोगी गांधी

(ऊपर लिखे विषयों में से किसी एक पर अधिकतम 400 शब्दों में निबंध लिखना है)

#### वरिष्ठ वर्ग(14 से 18 वर्ष) —

- गांधी जी एवं कौशल विकास
- कोविड -19 के समय गांधी जी का महत्व
- ग्राम स्वराज्य एवं गांधी

(ऊपर लिखे विषयों में से किसी एक पर अधिकतम 550 शब्दों में निबंध लिखना है )

सभी विजेताओं को पुरस्कार राशि एवं प्रमाण पत्र से सम्मानित किया जाएगा, पुरस्कार की राशि इस प्रकार है:

#### कनिष्ठ वर्ग -

- पहला पुरस्कार (21,000/-) – ( एक हिन्दी और एक अंग्रेज़ी भाषा के लिए )
- दूसरा पुरस्कार (11,000/-) – ( एक हिन्दी और एक अंग्रेज़ी भाषा के लिए )
- तीसरा पुरस्कार (5,100/-) - ( एक हिन्दी और एक अंग्रेज़ी भाषा के लिए )
- प्रोत्साहन पुरस्कार (2,100/-) -(पांच हिन्दी और पांच अंग्रेज़ी भाषा के लिए)

#### वरिष्ठ वर्ग ---

- पहला पुरस्कार (21,000/-) – ( एक हिन्दी और एक अंग्रेज़ी भाषा के लिए )
- दूसरा पुरस्कार (11,000/-) – ( एक हिन्दी और एक अंग्रेज़ी भाषा के लिए )
- तीसरा पुरस्कार (5,100/-) - ( एक हिन्दी और एक अंग्रेज़ी भाषा के लिए )
- सांत्वना पुरस्कार (2100/-) - (पांच हिन्दी और पांच अंग्रेज़ी भाषा के लिए)

आप निम्नलिखित प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण करके प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं।

- **Junior (Hindi)** <https://forms.gle/YHHkWyCmAxSSKjcE7>
- **Senior (Hindi)** <https://forms.gle/tsaTC8UEXycdXfNR7>

प्रतियोगिता के नियम ----

1. प्रतियोगिता केवल भारतीय नागरिकों के लिए खुली है ।
2. एक व्यक्ति से केवल एक ही प्रविष्टि स्वीकार्य होगी ।
3. आयु वर्ग -

**कनिष्ठ वर्ग (9 से 13 वर्ष )** ( जिन बच्चों का जन्म 01.07.2006 और 30.06.2011 के बीच हुआ हो ( दोनों दिन शामिल करके)

तथा

**वरिष्ठ वर्ग(14 से 18 वर्ष )** ( जिन बच्चों का जन्म 01-07-2002 और 30-06-2006 के बीच हुआ हो (दोनों दिन शामिल करके) ।

प्रतिभागी को अपने विधिवत आयु प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करनी है ।

4. लेख(निबंध ) हिन्दी अथवा अंग्रेज़ी भाषा में ही स्वीकारे जायेंगे ।
5. प्रतियोगी के द्वारा प्रस्तुत मौलिक आलेख पर प्रतियोगी का स्वयं का सर्वत्रधिकार (कॉपीराइट) होना चाहिए, इस पहले किसी भी प्रिंट और डिजिटल मीडिया में प्रकाशित/प्रस्तुत नहीं होनी चाहिए।
6. प्रविष्टि में कोई भी उत्तेजक, आपत्तिजनक या अनुचित सामग्री नहीं होनी चाहिए ।
7. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र(आई जी एन सी ए ) और सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केंद्र, (सीसीआरटी) गैरकानूनी रूप से तैयार विषय-वस्तु के प्रकाशन के लिए कोई दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं ।

8. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र(आई जी एन सी ए ) और सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केंद्र, (सीसीआरटी) की गलत या देरी से हुई प्रविष्टि की जिम्मेदारी नहीं लेते हैं ।
9. प्रतियोगियों द्वारा प्रस्तुत प्रविष्टियों का उपयोग आई जी एन सी ए और सीसीआरटी द्वारा अपने सोशल मीडिया, वेबसाइट तथा प्रकाशन हेतु किया जा सकता है।
10. विधिवत पूर्ण की गई प्रविष्टियाँ दिनांक 14 सितम्बर 2020, को रात्रि 11:30 बजे (IST) से पहले ऑनलाइन आवेदन प्रणाली का उपयोग करके भेजी जानी चाहिए ।
11. यदि प्रविष्टि अधूरी या गलत पाई जाती है तो आयोजकों को प्रविष्टि के निरस्त करने का अधिकार है। आयोजकों/ निर्णायकों का निर्णय सर्वमान्य होगा | और इस बारे में कोई पत्र व्यवहार स्वीकार नहीं किया जाएगा |
12. विजेताओं को ईमेल के माध्यम से या आई जी एन सी ए तथा सी सी आर टी के वेबसाइट पर उसका नाम घोषित करने के माध्यम से सूचित किया जाएगा। प्रतियोगिता का परिणाम आई. जी. एन. सी. ए तथा सी .सी. आर. टी की वेबसाइट पर भी अपलोड किया जाएगा।
13. आलेख के अटेच का उल्लेख करें (अ) -.टाइप प्रति/ ब. हस्तलिखित (पीडीऍफ़ फोर्मेट )
14. आमंत्रित आलेखों के मानदंड

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| • विषय की समझ               | ---20 अंक |
| • भाषा पर पकड़              | ---20 अंक |
| • तथ्यपरकता                 | ---20 अंक |
| • मौलिक विचार और तर्कसंगतता | ---20 अंक |
| • सृजनशीलता                 | ---20 अंक |
|                             | 100 अंक   |

प्यारे बच्चों, आप ने गांधी जी के बारे में बहुत पढा और सुना होगा और वीडियो के माध्यम से उनके दर्शन भी किये होंगे | हमें खुशी है कि आप ने इस प्रतियोगिता में भाग लेने का मानस बनाया | इस प्रतियोगिता के जरिये आप गांधीजी के जीवन, उनके कार्यों, नीतियों और उपदेशों के बारे में अधिक खोज, चर्चा और विचार करेंगे और मौलिक चिंतन के साथ उत्तम लेखन करेंगे | शुभ कामनाएं .....